

**M.A. Ist Semester
Examination, 2023-24**

ECONOMICS

**Paper : I
(Micro Economics)**

Time : 2½ Hours]

[Max. Marks : 80

Note : This question paper consists of two Sections, Section 'A' and 'B'. Attempt any *four* questions each from Section 'A' and 'B'. Limit your answers within the given answer book. B answer book will not be provided or used.

नोट :- इस प्रश्न पत्र में दो खण्ड हैं, खण्ड 'अ' तथा 'ब'। खण्ड 'अ' तथा 'ब' प्रत्येक से किन्हीं चार-चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के उत्तर दी गयी उत्तर-पुस्तिका में ही दीजिए। अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जायेगी।

Section-A

(खण्ड-अ)

Short Answer Type Questions 4×5=20

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

1. Make a comparison of Marshall's and Robbins views regarding Economics.

अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में मार्शल और रॉबिन्स के विचारों की तुलना कीजिए।

2. Throw light on the nature of Economics as a positive and normative science.

वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की प्रकृति पर प्रकाश डालिए।

3. What is the difference between law of demand and elasticity of demand ?

माँग के नियम और माँग की लोच में क्या अन्तर है ?

4. Explain the Marshall's viewpoint on consumer's surplus.

उपभोक्ता बचत की मार्शल की विचारधारा को समझाइए।

5. What is meant by production function ? Mention the characteristics of production function.

उत्पादन फलन का क्या अभिप्राय है ? उत्पादन फलन की विशेषताएँ बताइए।

6. Explain constant elasticity of substitution (CES) function of production.

उत्पादन के स्थिर प्रतिस्थापन लोच (CES) फलन को समझाइए।

7. What is the difference between fixed cost and variable cost ?

स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में क्या अन्तर है ?

8. What is total revenue when marginal revenue is zero ?

जब सीमान्त आगम शून्य होता है, तो कुल आगम क्या होता है ?

Section-B

(खण्ड-ब)

Long Answer Type Questions 4×15=60

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

9. Discuss the methods of economics study and their merits and demerits.

अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रणालियों तथा इनके गुण-दोषों का विवेचना कीजिए।

10. What is the difference between micro and macro Economics ? Can both these concepts be worked together ?

व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अन्तर है ? क्या इन दोनों का आर्थिक विश्लेषण में एक साथ प्रयोग किया जा सकता है ?

11. What do you mean by diminishing marginal rate of substitution ? Is an indifference curve always convex to origin ? Explain. <https://www.sdsuvonline.com>

घटती सीमान्त प्रतिस्थापन दर से आप क्या समझते हैं ? एक उदासीनता वक्र क्या सदैव मूल बिन्दु की ओर उन्नतोदर होता है ? स्पष्ट कीजिए।

12. Discuss the concept of elasticity of demand. Explain Flux's method of measuring elasticity with suitable examples.

माँग की लोच के विचार को स्पष्ट कीजिए। फ्लक्स द्वारा प्रतिपादित माँग की लोच की माप की व्याख्या उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

P-853

(3)

<https://www.sdsuvonline.com>

13. Describe fully the law of variable proportions.

परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पूर्ण व्याख्या कीजिए।

14. Explain the technical marginal rate of substitution with table and diagram.

तकनीकी प्रतिस्थापन दर को तालिका एवं चित्र सहित समझाइए।

15. Explain the cost and output relation during short-run and long-run.

अल्पकाल एवं दीर्घकाल में लागत एवं उत्पादन सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए।

16. Explain the relationship among marginal revenue, Average revenue and total revenue with the help of appropriate curves.

वक्रों की सहायता से सीमान्त आय, औसत आय तथा कुल आय में सम्बन्ध बताइए।

<https://www.sdsuvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजे और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से

P-853

(4)

<https://www.sdsuvonline.com>